



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]
No. 254]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 21, 2008/फाल्गुन 2, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2008/PHALGUNA 2, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2008

(आय-कर)

का.आ. 386(अ)—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115कग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों के संबंध में उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 89(अ) तारीख 15 फरवरी, 2008 द्वारा "विदेशी मुद्रा विनिमययोग्य बंध-पत्र निर्गम स्कीम 2008" को स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 28/2008/फा. सं. 149/193/2007-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2008

(INCOME-TAX)

S.O. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 115AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government specifies the "Issue of Foreign Currency Exchangeable Bonds Scheme, 2008" notified vide notification number GSR 89(E) dated the 15th February, 2008 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, as a Scheme for the purposes of the said section in respect of assessment year 2008-2009 and subsequent assessment years.

[Notification No. 28/2008/F. No. 149/193/2007-TPL]

VANDANA RAMACHANDRAN, Under Secy.